



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या-26/2020/1239/77-3-2020-37 एम/12
लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त, 2020
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (अधिनियम संख्या 8 सन् 1851) की धारा 9 के साथ पठित धारा 2 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सार्वजनिक निजी भागीदारी/ इंजिनियरिंग प्रोक्वोरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्सन/अन्य किसी रीति से निर्मित और राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किन्हीं अन्य प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन एक्सप्रेसवेज और समस्त सेतुओं, जिनके अन्तर्गत इण्टरचेन्जेज, उपरिगामी सेतु, रेलवे उपरि सेतु और अधो सेतु, एक्सप्रेसवेज के उपमार्ग लाइन भी हैं, का प्रयोग करने वाले परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार-प्राप्तकर्ता व्यक्ति, यदि ऐसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिये उपयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रदर्शित करते हैं, से प्रभारित की जाने वाली फीस और उनसे उद्धृष्ट किये जाने वाले या वसूल किये जाने वाले पथकर को विनियमित करने की दृष्टि से "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्धरण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010" को संशोधित करती हैं।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्धरण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (सातवां संशोधन), नियमावली, 2020 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्धरण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (सातवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।
- (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-11 का संशोधन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्धरण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<u>11- फीस के संदाय से छूट</u>	<u>11- फीस के संदाय से छूट</u>
(1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्धृष्ट और संग्रहीत नहीं की जायेगी:-	(1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्धृष्ट और संग्रहीत नहीं की जायेगी:-
(क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं:-	(क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं:-
(एक) भारत के राष्ट्रपति;	(एक) भारत के राष्ट्रपति;
(दो) भारत के उपराष्ट्रपति;	(दो) भारत के उपराष्ट्रपति;
(तीन) भारत के प्रधानमंत्री;	(तीन) भारत के प्रधानमंत्री;
(चार) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति;	(चार) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति;
(पांच) राज्यपाल;	(पांच) राज्यपाल;
(छः) उपराज्यपाल;	(छः) उपराज्यपाल;
(सात) मुख्यमंत्री;	(सात) मुख्यमंत्री;
(आठ) केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल के अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी;	(आठ) केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल की अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी;
(नौ) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों के अधिकारिता से युक्त विरोधीदल के नेता;	(नौ) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों की अधिकारिता रखने वाले विरोधीदल के नेता;
(दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;	(दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
(ग्यारह) राज्य के विधान परिषद के सभापति;	(ग्यारह) राज्य विधान परिषद के सभापति;
(बारह) राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष;	(बारह) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष;
(तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;	(तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति;
(चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;	(चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;
(पंद्रह) भारत सरकार के मंत्री;	(पंद्रह) भारत सरकार के मंत्री;
(सोलह) उ०प्र० सरकार के मंत्री;	(सोलह) उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री;
(सोलह) (क) लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य	(क) लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य

(सोलह) (ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य (सोलह) (ग) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य (सत्रह) उ०प्र०सरकार के सचिव और आयुक्त; (अठ्ठारह) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति; (उन्नीस)सी.डी. प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान; (बीस) समस्त सरकारी वाहन। (ख) सरकारी कार्य हेतु प्रयुक्त यान:- (एक) रक्षा मंत्रालय जिसमें वो भी सम्मिलित जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901 और तद्दीन बनाये गये नियमों, जो नौसेना को भी विस्तारित किये गये हैं, के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हों। (दो) अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल; (तीन) ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट; (चार) ऐसे व्यक्ति, जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग अपेक्षित है; (पांच) अग्निशमन विभाग या संगठन; (छः) सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, के अधिकारी और; (ग) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान। (घ) शव वैन के रूप में प्रयुक्त यान और ; (ङ.) कुछ शारीरिक दोष अथवा निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति के प्रयोग के लिये विशेष रूप से अभिकल्पित एवं निर्मित यान।	(ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य (ग) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य (सत्रह) उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव और आयुक्त; (अठ्ठारह) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति; (उन्नीस)सी.डी. प्रतीक के साथ कारों का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान; (बीस) समस्त सरकारी यान। (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रयुक्त शासकीय यान:- (एक) रक्षा मंत्रालय, जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 और तद्दीन बनायी गयी नियमावली, जो नौसेना के लिये भी विस्तारित हैं, के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हों; (दो) अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल; (तीन) ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट; (चार) ऐसे व्यक्ति, जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग अपेक्षित है; (पांच) अग्निशमन विभाग या संगठन; (छः) सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के अधिकारी और; (ग) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान। (घ) शव वैन के रूप में प्रयुक्त यान और ; (ङ.) कुछ शारीरिक दोष अथवा निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति के प्रयोग के लिये विशेष रूप से अभिकल्पित एवं निर्मित यान। (इक्कीस) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार-प्राप्तकर्ता व्यक्ति, यदि ऐसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिये उपयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रदर्शित करते/करती हैं।
---	---

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास विभाग

संख्या- 26/2020/1239(1)/77-3-20-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि आगामी अंक के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 250 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या- 26/2020/1239(1)/77-3-20-तद्दिनांक।

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० एक्सप्रेसवेज द्योगिक विकास प्राधिकरण, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी-लखनऊ, उन्नाव आगरा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, हरदोई, एवं औरैया।
3. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि आगामी अंक के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 250 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।